



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 134]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 1977/वैशाख 8, 1899

No. 134]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 1977/VAISAKHA 8, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 28th April 1977

G.S.R. 196(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No 71/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976, the Central Government hereby exempts polyethylene coated paper, polyethylene coated board, waxed paper, waxed board, polyethylene sandwiched paper and polyethylene sandwiched board, falling under Item No 17 of the First Schedule to the Central Excises and salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of 125 per cent ad valorem, subject to the condition that the appropriate duty of excise or additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, has already been paid in respect of the base paper or board used in their manufacture —

Provided that nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer who avails of—

- (i) the special procedure prescribed under rule 56A of the aforesaid Rules in respect of the duty paid on base paper or board, or
- (ii) the exemption granted under the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No 67/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976

Explanation.—For the purposes of this notification, the base paper or board used in the manufacture of polyethylene coated paper, polyethylene coated board, waxed paper, waxed board, polyethylene sandwiched paper or polyethylene sandwiched board shall be deemed to have paid the appropriate duty of Excise or the additional duty leviable under section 3 of the said Customs Tariff Act, 1975, if it is purchased from the market.

[No. 71/77C.E.]

A. S. SIDHU, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1977

सा० का० नि० 196 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 71/76 तारीख 16 मार्च, 1976 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 17 के अधीन आने वाले पोलिथिलीन लेपित कागज, पोलिथिलीन लेपित गत्ता, मोमी कागज पोलिथिलीन सैण्डविच किया हुआ कागज और पोलिथिलीन सैण्डविच किए हुए गत्ते को उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देने हैं, जो मूल्य के 12.5 प्रतिशत से अधिक है किन्तु शर्त यह है कि उनके विनिर्माण में उद्ग्रहणीय प्रयुक्त आधारी कागज या गत्ते पर समुचित उत्पाद-शुल्क या सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त शुल्क, पहले ही सदत्त किया जा चुका हो।

परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे किसी निर्माता को लागू नहीं होगी, जो—

- (i) आधारी कागज या गत्ते पर दिए गए शुल्क की बाबत पूर्वोक्त नियमों के नियम 56क के अधीन विहित प्रक्रिया का, अथवा
- (ii) भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 67/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 16 मार्च, 1976 के अधीन दी गई छूट का, लाभ उठाता है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, पोलिथिलीन लेपित कागज, पोलिथिलीन लेपित गत्ते, मोमी कागज या मोमी गत्ते, पोलिथिलीन सैण्डविच किया हुआ कागज या पोलिथिलीन सैण्डविच किए हुए गत्ते के विनिर्माण में उपयोग में लाए गए कागज या गत्ते के बारे में, यदि वे बाजार से खरीदे गए हैं तो यह समझा जाएगा कि उस पर समुचित उत्पाद-शुल्क या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त शुल्क सदत्त किया जा चुका है।

[सं० 71/77सी०ई०]

ए० एस० सिद्धु, अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977